



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 1979/अग्रहायण 14, 1901

No. 384] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 1979/AGRAHAYANA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा०का०वि० 676 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रबन्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 131-सीमाशुल्क तारीख 5 जुलाई, 1978 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु को, जब किसी व्यक्ति द्वारा उसका आयात भारत में, उसके निवास स्थान के वास्तविक स्थानान्तरण पर, उसे यात्री सामान (बैगेज) के भाग के रूप में किया जाता है :—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक है; और

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण प्रतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट बेती है, अर्थात् :—

(1) ऐसे व्यक्ति ने निवास स्थान के स्थानान्तरण के ठीक पूर्व कम से कम दो वर्ष की अवधि तक विदेश में निवास किया

है और कम से कम एक वर्ष तक भारत में ठहरने के लिये अपने ऐसे निवास स्थान का स्थानान्तरण किया है ;

(2) ऐसा व्यक्ति घोषणा द्वारा यह अधिपुष्ट करता है कि ऐसा माल कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उसके कुटुम्ब के कब्जे और उपयोग में रहा है तथा माल की परीक्षा करने और अनुवर्ती परिस्थितियों से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है

(3) ऐसे माल का विक्रय, संप्रदर्शन या विभाजन या विक्रय के लिये उसका प्रस्तुतीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसकी बाजार कीमत में उस बाजार कीमत से, जब वह माल नया था, 50 प्रतिशत से अधिक का अवक्षयण न हो गया हो; और

(4) यात्री के साथ न आने वाले माल का, यात्री सामान नियम, 1978 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पोतभरण या प्रेषण कर दिया गया था वह पहुँच गया था।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये—

(क) सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत में अल्पकालिक आगमनों की, यदि कोई है, उपेक्षा कर दी जायेगी किन्तु यह तब जब इन आगमनों पर ठहरने की कुल अवधि छह मास से अधिक नहीं है।

(ख) विदेश में किसी व्यक्ति के ठहरने के अवधि की कमी को सहायक सीमाशुल्क कलक्टर माफ कर सकेगा, किन्तु यह तब जब उसका यह समाधान हो जाये कि व्यक्ति की भारत में समय से पूर्व वापसी, उसके द्वारा सेवान्त छुट्टी लेने या

प्राचकाश के कारण या किसी अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण शुरू है।

परन्तु सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर सीमा-शुल्क कलक्टर भारत में छह मास से अधिक रहने की अवधि माफ कर सकेगा।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का वर्णन	सीमा शुल्क की दर
1	2	3
1.	घरेलू रेफ्रिजरेटर जिसकी क्षमता 100 लिटर से अधिक नहीं है	15 प्रतिशत
2.	घरेलू रेफ्रिजरेटर जिसकी क्षमता 100 लिटर से अधिक है। किन्तु 165 लिटर से अधिक नहीं है।	20 प्रतिशत
3.	अन्य घरेलू रेफ्रिजरेटर	40 प्रतिशत
4.	डीप फ्रीजर	40 प्रतिशत
5.	वातानुकूलक (एयरकंडीशनर)	50 प्रतिशत

[सं० 230 सीमाशुल्क/फा०सं० 495/15/79-सीमाशुल्क-6]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th December, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 676 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 131—Customs dated the 5th July, 1978, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto, when imported by any persons part of his baggage, on a bona-fide transfer of residence to India, from —

- so much of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, (51 of 1975), as in excess of the rates specified in the corresponding entry in column (3) of the said table; and
- the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), subject to the following conditions, namely :
 - such person has been residing abroad for a minimum period of 2 years immediately preceding the transfer of residence and is transferring his residence to India for a minimum stay of one year;
 - such person affirms by a declaration that the goods have been in his family's possession and use for a minimum period of one year and examination of the goods and attendant circumstances do not indicate to the contrary ;
 - such good shall not be sold, displayed or advertised or offered for sale until their market price has depreciated to less than 50 per cent of the market price when new; and
 - the goods not accompanying the passenger were shipped or despatched or arrived within the time limits specified in the the Baggage Rules, 1978.

EXPLANATION :- For the purposes of this notification —

- short visits, if any made by the person concerned to India during the aforesaid period of 2

years shall be ignored if the total duration of stay on these visits does not exceed six months;

- shortfall upto a period of two months in a person's stay abroad may be condoned by the Assistant Collector of Customs if he is satisfied that the persons, early return to India had been caused by his availing of the terminal leave or a vacation or by any other special circumstances :—

Provided that on sufficient cause being shown by the person concerned, the Collector of Customs may condone the period of stay in India in excess of six months.

TABLE

Sl. No.	Description of article	Rate of Customs duty
1	2	3
1.	Domestic refrigerators capacity not exceeding 100 litres.	15 %
2.	Domestic refrigerators capacity exceeding 100 litres but not exceeding 165 litres.	20 %
3.	Other domestic refrigerators	40 %
4.	Deep Freezers	40 %
5.	Air-Conditioners.	50 %

[No. 230 Cus./F. No. 495/15/79-Cus-V I]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1979

(सीमा-शुल्क)

सा०का०नि० 677(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हा जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 104-सीमा शुल्क, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

“उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

क्रम सं० 233 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्”, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

“234 सं० 230—सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1979”

[सं० 231-सीमा शुल्क/फा०सं० 495/15/79-सीमाशुल्क-6]

आनन्द बोडिया, अवर सचिव

New Delhi, the 5th December, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 104—Customs dated the 10th May, 1979 namely :—

“In the Schedule to the said notification after Serial No. 233 and entries relating thereto”;

the following Serial No. and entries shall be inserted, namely ;

“234 No. 230—Customs dated the 5th December, 1979”.

[No. 231—Customs/F No. 495/15/79-Cus.VI]

A. BORDIA, Under Secy.